

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98]

दिल्ली, शनिवार, मई 25, 2019/ज्येष्ठ 4, 1941

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 50

No. 98]

DELHI, SATURDAY, MAY 25, 2019/JYAISTHA 4, 1941

[N.C.T.D. No. 50

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-II (विभाग)

(कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात: मुख्यालय: दिल्ली)

(दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली)

अधिसूचना

दिल्ली, 22 मई, 2019

सं.फा. 20/4/2003/गृ.पु.-II-1739.—क्योंकि अजमल खॉ रोड पर पूसा रोड जंक्शन से देशबंधु गुप्ता रोड जंक्शन के मध्य अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने के कारण रोड़ पर भीड़-भाड़ उत्पन्न हो रही है तथा इससे सड़क प्रयोगकर्ताओं को समस्या आ रही है। अतः यातायात की भीड़-भाड़ पर रोकथाम, सुगम प्रवाह और सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक है ।

और क्योंकि उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यातायात को सुचारू रूप से चलाने व सड़क प्रयोगकर्ताओं की सुरक्षा एवम् सुविधा के लिए अजमल खॉ रोड पर पूसा रोड जंक्शन से देशबंधु गुप्ता रोड जंक्शन के मध्य अनाधिकृत रूप से वाहनों के खड़े होने पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है ।

अतः मैं, उर्विजा गोयल, उपायुक्त पुलिस, यातायात (मुख्यालय) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम, 1980 की धारा 3(3) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए एतद्वारा सभी प्रकार के वाहनों को अजमल खॉ रोड पर पूसा रोड जंक्शन से देशबंधु गुप्ता रोड जंक्शन के मध्य खड़ा करने व इंतजार करने को प्रतिदिन 24 घंटे के लिए प्रतिबंधित करती हूँ (अधिकृत पार्किंग स्थलों को छोड़कर)।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों तथा तमाम थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी।

संबंधित अधिकरण एवम् सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवम् सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट (वाहन खड़ा करना व इंतजार करना प्रतिबंधित है) संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 22/05/2019 को जारी किया गया।

उर्विजा गोयल, उपायुक्त पुलिस

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

(OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE: TRAFFIC: HDQRS., DELHI)

(DELHI TRAFFIC POLICE HDQRS., NEW DELHI)

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd May, 2019

F.No. 20/4/2003/HP-II-1739.—Whereas, it is necessary to ensure smooth flow of traffic, prevent congestion, safety of all road users and to avoid inconvenience to general public due to unauthorized parking of vehicles on entire Ajmal Khan Road from Pusa Road Junction to Desh Bandhu Gupta Road Junction.

And whereas in view of the above mentioned problems, it is necessary to control the parking of motor vehicles on entire Ajmal Khan Road from Pusa Road Junction to Desh Bandhu Gupta Road Junction with an objective to ensure uninterrupted, safe and free management of traffic and safety of other road users.

Now, therefore, I, Urvija Goel, Deputy Commissioner of Police, Traffic, Headquarters, Delhi in exercise of the powers, conferred upon me under Regulation 3 (3) of Delhi Control of Vehicular and Other Traffic on Roads and Street Regulations, 1980 do hereby restrict the parking of all type of vehicles for 24 hrs. of the day on entire Ajmal Khan Road from Pusa Road Junction to Desh Bandhu Gupta Road Junction, till further orders.

This order shall be published for the information of the general public in the official gazette and by affixing a copy on the notice boards of the office of all District Deputy Commissioner of Police and all Police Stations in Delhi/New Delhi.

The concerned civic road agencies maintaining the subject roads shall erect sufficient number of the corresponding informatory and mandatory signboards indicating the restriction on the road for the guidance and convenience of all road users.

This order shall come into force with immediate effect.

Given under my hand and seal of this office on 22/05/2019.

URVIJA GOEL, Dy. Commissioner of Police